



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1759]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2011/भाद्र 29, 1933

No. 1759]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2011/BHADRA 29, 1933

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2011

का.आ. 2101(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन, जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 94, तारीख 30 दिसम्बर, 2010 द्वारा, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट झारखण्ड राज्य के अंचल : कामडारा, जिला : गुमला की भूमि में, पारादीप-सम्बलपुर-रायपुर-राँची पाइपलाइन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पारादीप (उड़ीसा) से रायपुर (छत्तीसगढ़) एवं राँची (झारखण्ड) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने हेतु, उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 28 मार्च, 2011 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा

करती है कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाता है;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

अंचल-कामडारा	जिला-गुमला	राज्य-झारखण्ड		
गाँव का नाम	प्लॉट सं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
टाटी-7	3382	00	02	39
	3383	00	02	06
	3385	00	01	39
	3387	00	00	63
	3388	00	08	54
	3628	00	44	35
	3653	00	14	39
	3657	00	00	50
	3658	00	02	63
	3660	00	04	32

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
टाटी-7—(जारी)	3661	00	02	95	कुलबुरू-4	1489	00	15	76
	3665	00	08	54		1455	00	02	58
	3668	00	15	83		1454	00	07	17
	3698	00	05	34		1385	00	03	19
	3711	00	01	76		1386	00	00	53
	3700	00	01	50		1383	00	01	04
	3702	00	04	60		1394	00	00	26
	3705	00	03	50		1393	00	03	72
	3703	00	09	61		1391	00	00	10
	2850	00	00	10		1395	00	05	28
	3704	00	01	57		1396	00	00	88
	3707	00	00	38		1400	00	06	70
	3706	00	02	81		1403	00	01	38
	2847	00	09	82		1404	00	00	57
	2846	00	04	40		1401	00	02	08
	2845	00	09	69		2259	00	02	87
	2843	00	00	39		2258	00	08	64
	3732	00	04	20		2256	00	03	24
	3731	00	11	01		2249	00	00	71
	3735	00	00	95		2254	00	00	10
	3737	00	05	40		2255	00	01	64
	3746	00	09	75		2247	00	07	00
	3747	00	03	02		2250	00	06	38
	3748	00	05	12		2251	00	00	10
	3758	00	00	90		2245	00	03	62
	3759	00	05	43		2257	00	01	21
	3783	00	02	29		2244	00	02	14
	3784	00	02	12		2238	00	00	10
	3782	00	00	32		2239	00	10	78
	3781	00	07	09		2227	00	01	41
	3812	00	11	70		2226	00	05	35
	3811	00	10	04		2225	00	00	14
	3810	00	02	14		2220	00	03	86
	3807	00	01	38		2221	00	00	74
	3806	00	04	28		2217	00	08	25
	3815	00	01	92		2212	00	08	89
	3805	00	05	99		2203	00	02	29
	3804	00	11	68		2215	00	03	39
	3803	00	00	21		2201	00	13	67
						2180	00	19	38
						1392	00	00	80

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कुलबुरू-4—(जारी)	1381	00	00	10	खिजरी-3—(जारी)	1669	00	06	65
	2619	00	00	42		2084	00	01	54
	2192	00	00	33		1698	00	05	46
	2623	00	15	95		1697	00	01	34
	2650	00	07	18		1696	00	07	21
	2649	00	13	20		1695	00	00	93
	2634	00	05	71		1694	00	08	26
	2631	00	00	10		1716	00	00	10
	2630	00	08	18		1715	00	09	35
	3738	00	02	46		1718	00	00	10
	3737	00	00	13		1717	00	07	56
	3733	00	00	64		1824	00	00	11
	3732	00	04	11		1817	00	05	93
खिजरी-3	575	00	00	10		1819	00	08	04
	573	00	10	80		1818	00	00	13
	572	00	06	48		1820	00	00	77
	571	00	07	45		1815	00	01	79
	578	00	00	25		1816	00	08	78
	585	00	01	75		1813	00	03	66
	2152	00	00	10		1812	00	06	10
	2151	00	16	64		1872	00	03	43
	2133	00	02	77		1807	00	03	90
	2134	00	02	56		1805	00	01	12
	2135	00	01	88		1804	00	02	50
	2136	00	00	62		1881	00	08	04
	2141	00	00	17		1882	00	00	22
	2128	00	02	39		1885	00	05	33
	2126	00	03	35		1886	00	12	91
	2125	00	07	31		1887	00	05	98
	2124	00	00	60		1888	00	01	05
	2123	00	01	46		1366	00	14	10
	1663	00	00	10		1367	00	03	90
	2091	00	01	43		1364	00	07	17
	1665	00	02	90		1365	00	00	10
	1666	00	01	12		1346	00	10	77
	2090	00	01	53		1345	00	06	29
	1667	00	05	58		1344	00	03	00
	1672	00	00	86		1343	00	00	81
	1668	00	07	97		1347	00	15	63
	1671	00	00	10		1335	00	01	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खिजरी-3	1334	00	02	33
	1336	00	01	92
	1333	00	06	71
	1332	00	09	69
	1331	00	02	41
	1323	00	10	50
	1325	00	03	36
	1324	00	08	26
	1282	00	10	27
	1301	00	08	45
	1300	00	08	92
	1304	00	00	7
	1303	00	03	08
सरिता-1	4884	00	16	82

[फा. सं. आर.-25011/49/2010-ओ.आर.-1]

बी. के. दत्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2011

S.O. 2101(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 94, dated 30-12-2010 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land in Anchal- Kamdara, District-Gumla, in Jharkhand State, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Petroleum products from Paradip (Orissa) to Raipur (Chhattisgarh) and Ranchi (Jharkhand) by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 28th March, 2011;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act. submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Central Government hereby directs the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests on date of publication of this declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Anchal : Kamdara District : Gumla State : Jharkhand

Name of the Village	Plot No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TATI-7	3382	00	02	39
	3383	00	02	06
	3385	00	01	39
	3387	00	00	63
	3388	00	08	54
	3628	00	44	35
	3653	00	14	39
	3657	00	00	50
	3658	00	02	63
	3660	00	04	32
	3661	00	02	95
	3665	00	08	54
	3668	00	15	83
	3698	00	05	34
	3711	00	01	76
	3700	00	01	50
	3702	00	04	60
	3705	00	03	50
	3703	00	09	61
	2850	00	00	10
	3704	00	01	57
	3707	00	00	38
	3706	00	02	81
	2847	00	09	82
	2846	00	04	40
	2845	00	09	69
	2843	00	00	39
	3732	00	04	20
	3731	00	11	01
	3735	00	00	95
	3737	00	05	40
	3746	00	09	75

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3747	00	03	02		2245	00	03	62
	3748	00	05	12		2257	00	01	21
	3758	00	00	90		2244	00	02	14
	3759	00	05	43		2238	00	00	10
	3783	00	02	29		2239	00	10	78
	3784	00	02	12		2227	00	01	41
	3782	00	00	32		2226	00	05	35
	3781	00	07	09		2225	00	00	14
	3812	00	11	70		2220	00	03	86
	3811	00	10	04		2221	00	00	74
	3810	00	02	14		2217	00	08	25
	3807	00	01	38		2212	00	08	89
	3806	00	04	28		2203	00	02	29
	3815	00	01	92		2215	00	03	39
	3805	00	05	99		2201	00	13	67
	3804	00	11	68		2180	00	19	38
	3803	00	00	21		1392	00	00	80
KULBURU-4	1489	00	15	76		1381	00	00	10
	1455	00	02	58		2619	00	00	42
	1454	00	07	17		2192	00	00	33
	1385	00	03	19		2623	00	15	95
	1386	00	00	53		2650	00	07	18
	1383	00	01	04		2649	00	13	20
	1394	00	00	26		2634	00	05	71
	1393	00	03	72		2631	00	00	10
	1391	00	00	10		2630	00	08	18
	1395	00	05	28		3738	00	02	46
	1396	00	00	88		3737	00	00	13
	1400	00	06	70		3733	00	00	64
	1403	00	01	38		3732	00	04	11
	1404	00	00	57	KHIJRI-3	575	00	00	10
	1401	00	02	08		573	00	10	80
	2259	00	02	87		572	00	06	48
	2258	00	08	64		571	00	07	45
	2256	00	03	24		578	00	00	25
	2249	00	00	71		585	00	01	75
	2254	00	00	10		2152	00	00	10
	2255	00	01	64		2151	00	16	64
	2247	00	07	00		2133	00	02	77
	2250	00	06	38		2134	00	02	56
	2251	00	00	10		2135	00	01	88

34864/11-2

KHIJRI-3					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
					KHIJRI-3				
	2136	00	00	62					
	2141	00	00	17		1872	00	03	43
	2128	00	02	39		1807	00	03	90
	2126	00	03	35		1805	00	01	12
	2125	00	07	31		1804	00	02	50
	2124	00	00	60		1881	00	08	04
	2123	00	01	46		1882	00	00	22
	1663	00	00	10		1885	00	05	33
	2091	00	01	43		1886	00	12	91
	1665	00	02	90		1887	00	05	98
	1666	00	01	12		1888	00	01	05
	2090	00	01	53		1366	00	14	10
	1667	00	05	58		1367	00	03	90
	1672	00	00	86		1364	00	07	17
	1668	00	07	97		1365	00	00	10
	1671	00	00	10		1346	00	10	77
	1669	00	06	65		1345	00	06	29
	2084	00	01	54		1344	00	03	00
	1698	00	05	46		1343	00	00	81
	1697	00	01	34		1347	00	15	63
	1696	00	07	21		1335	00	01	20
	1695	00	00	93		1334	00	02	33
	1694	00	08	26		1336	00	01	92
	1716	00	00	10		1333	00	06	71
	1715	00	09	35		1332	00	09	69
	1718	00	00	10		1331	00	02	41
	1717	00	07	56		1323	00	10	50
	1824	00	00	11		1325	00	03	36
	1817	00	05	93		1324	00	08	26
	1819	00	08	04		1282	00	10	27
	1818	00	00	13		1301	00	08	45
	1820	00	00	77		1300	00	08	92
	1815	00	01	79		1304	00	00	77
	1816	00	08	78		1303	00	03	08
	1813	00	03	66					
	1812	00	06	10	SARITA-1	4884	00	16	82

[F. No. R-25011/49/2010-O.R.-1]

B. K. DATTA, Under Secy.